



ATS VALLEY SCHOOL
EXPLORE LEARN LEAD

फ़तह

(दिसंबर 2021)

2021
2022

हिन्दी की मासिक पत्रिका

पहले अलविदा फिर स्वागत

हमेशा नए वर्ष के स्वागत का रहता सबको इंतजार,
पुराने को अलविदा कहने को होते हम बेकरार।

मन में होती एक आस भरी,
नया वर्ष की सपनों की लिस्ट करेगा पूरी ।

आते का सब करते अभिवादन,
जाते का ना होता कोई मान। जिसके साथ बिताए पिछले 12 माह,
उससे ही हो रहे होते अब हम अनजान।

यह बात देती सीख हमेशा हम वर्तमान में ही जीते हैं,
चलों भुला दे उन दो बुरे पलों को, जो हाल में ही बीते हैं।

लेकिन,उन हसीन पलों का क्या कसूर?

जिसने किया था हमें दुख और तनाव से दूर।

उनको भी हम याद करें इस बीते हुए साल में,
जिसने दिया था हमें सुकून उदासी के उस हाल में।

नया साल की मुबारक संग आशाओं को बुलाते हैं,

चलो इस वर्ष के अच्छे पलों को संजोते हैं और बुरे को भुलाते हैं।

नया वर्ष, नई उमंग,नई उम्मीदें छाई हैं,

बीते वर्ष के अनुभव संग आपको नव वर्ष की हार्दिक बधाई है।

नए वर्ष में भी फ़तह द्वारा जारी रहेगा स्वागत आपके विचार का,

परिवर्तन से ना डरना बच्चों, यह तो नियम है संसार का।

निर्मला चौहान



नव वर्ष तुम्हारा स्वागत है, खुशियों की बस एक चाहत है,
नव वर्ष का प्रथम प्रभात, दे सबको अच्छी सौगात।
लेकिन यादें कुछ खास थी गुजरे साल में,
उसे दिल में रखेंगे बसा कर हम हर हाल में।

ध्रुव जिंदल (6अ)

आते-जाते साल हमें बहुत कुछ सिखाते हैं,
जिससे हम आगे बढ़ते जाते हैं, फिर अलविदा फिर
स्वागत का गीत हर वर्ष गाते हैं।

अजीतेश (6अ)

नया वर्ष आ गया,
पुराने का साथ हुआ अब खत्म।मिल
जुलकर अब भी साथ रहेंगे हम सब।

नेविन (5ब)

पुराने साल को फिर अलविदा
असान तो नहीं था शायद
पर शायद जरूरी था।
है ये तो एक अन्त ,
एक शुरुआत,
जैसे रात से सुबह
और सुबह से रात।

दक्ष गुलाटी(6अ)

करोना हो जाए बिल्कुल खत्म, खुशी-खुशी स्कूल में जाऊं।
दोस्तों संग खेलू बिना रुकावट ,
करता हूँ मैं इसी चाहत से नए साल का स्वागत।

गोबिंददीप (4अ)

नए साल का स्वागत करें हम मुस्कराकर
पुराने साल की अच्छी यादें मन में बसा कर
और बुरी यादों को भुलाकर

वैष्णवी (6अ)



जाते-जाते हम सब करे अलविदा,
बहुत याद आएगा बीता हुआ ये साल,
कुछ मीठी कुछ खट्टी यादों का है काल।
फिर लाएगा एक उम्मीद की किरन
जब करेंगे स्वागत हम नए साल का प्रतिदिन।।

मेहुल जैन(1अ)



इस साल को करके अलविदा,
नई साल का करते स्वागत।
इस साल की यादें दिल में लिए, नए साल का करते अभिनंदन।

युववान (3ब)

पुराने साल को कहकर अलविदा, नए
साल का फिर करते स्वागत।
पुरानी जिंदगी को करके अलविदा
नए वर्ष का फिर करते स्वागत।

प्रणवी (3अ)

पुरानी यादों को गले लगाए,
नए साल को पास बुलाए।
खुशियों के लिए खोल दे द्वार,
गम को 2021में छोड़ आए।

ज़ोहैन (3अ)

इस वर्ष भी ऑनलाइन पढ़ाई के साथ हम इसे
अलविदा कहने को तैयार हैं।
इसकी यादों के साथ नए वर्ष का स्वागत करने
को भी तैयार हैं।
होगी मुलाकात दोस्तों से नए वर्ष की नई कक्षा
में इस बात का भी मुझे बहुत इंतजार है।

अमायरा (2ब)

याद आएगा जो बीत गया,
यादगार बनाएंगे आने वाले को।

कीथ हुसैन(6अ)

फूलों की खुशबू में होकर फिदा, पुराने साल को करते अलविदा,
सूरज की रोशनी के साथ आ रही नई प्रभात,
मन में उल्लास लिए नए साल का करे स्वागत।

अक्षज पांडे (3अ)



फिर अलविदा फिर स्वागत है यह दुनिया का दस्तूर है,
स्कूल कभी ना हो फिर बंद,
मुझे दोस्तों से मिलना रोज जरूर है।

पृषा सैनी (2ब)

सोच भले ही नई रखो,
संस्कार पुराने ही अच्छे हैं।
नई साल का करो स्वागत,
याद रखो पुराने विचारों को,
जो अच्छे हैं।

यशिका(6अ)



बीते हुए साल में अनुभव किया,
पुराने साल से अनुभव लिया।
उम्मीद है नया वर्ष अच्छे से आए,
अपने साथ खुशियां अपार लाए,
हम दोस्त और अध्यापकों से रोज मिल पाए,
अच्छे से पढ़ाई करने वाले वह पुराने दिन वापस आ जाए।

करणवीर (4अ)

बीते इस साल में खूब मस्ती की,
स्कूल गए, दोस्तों से मिले।
आशा है आने वाली साल में भी चलते
रहे ये सिलसिले।

आराध्या राय (5अ)

यह साल रहा विविध रंगों से भरा, कुछ दुख से सरा तो कुछ सुख से भरा,
उम्मीद से भरा आ रहा है एक नया साल,
हम सबको रखना अपना और सब का खयाल।

नित्या (5ब)

शुक्रिया 2021 का जो दिया हमें इतना ज्ञान,
स्वागत 2022 का बढ़ाना हमारी और शान।

रिवान डोगरा (1अ)

